



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 820) पटना, वृहस्पतिवार, 6 अक्टूबर 2016

सं0 18/विविध-06-12/2011,सा0प्र0-11565
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

26 अगस्त 2016

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र की मजबूती के लिए सतत् परामर्श, बौद्धिक विकास प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा सुशासन केन्द्र एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया था। दिनांक 22.08.2012 से कार्यरत यह सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित है जिसकी निबंधन संख्या-692 (वर्ष 2012-13) है। इसका कार्यालय, ललित भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड के तृतीय तल पर अवस्थित है।

2. प्रशासनिक ईकाइयों/कार्यों में गुणात्मक सुधार तथा नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के समविषयक उद्देश्यों के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी भी गठित है। इसके माध्यम से लोक सेवाओं के अधिकार विषयक अनेक प्रकार की सेवाएँ नागरिकों को तय समय-सीमा के अन्तर्गत सफलतापूर्वक उपलब्ध करायी जा रही हैं।

साथ ही, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित हुआ है। इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 निर्मित है। इसके कार्यान्वयन का दायित्व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्रदत्त है।

3. उल्लिखित संदर्भ में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी, पटना के विघटन का प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचारधीन था।

4. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के ठलम.सूँ की कंडिका-31 में सोसाइटी के विघटन का प्रावधान है, जो निम्नरूपेण है:-

Subject to the provisions of the Act. the CGG Society may be dissolved by a resolution passed at a Special Meeting of the Governing Council of the CGG Society duly convened for the purpose and supported by **at least two- third of the total members of the CGG Society.** The Governing Council shall prescribe Procedure for such dissolution by

such, resolution. The Governing council may on such resolution decide to take action for liquidation of assets and liabilities of the CGG society. They shall or can be given over to organizations with similar aims and objectives as that of the CGG Society, strictly in accordance with the provisions of Act, or surrendered to the GoB. In either case, the decision of GoB shall be final.

5. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा अब तक संपादित कार्यों की इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के संदर्भ में समीक्षा दिनांक 22.04.2016 को आयोजित सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के शासी परिषद् की बैठक में की गयी। शासी परिषद् के उक्त विशेष बैठक (2016-17) में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित करने की सर्वसम्मति अनुशांसा निम्नांकित आधारों पर की गयी है:-

(i) सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी उन्हीं उद्देश्यों के लिए गठित है, जिनके क्रियान्वयन हेतु बिहार विकास मिशन का गठन हुआ है।

(ii) बिहार विकास मिशन में सरकार द्वारा निर्धारित सात निश्चयों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी से वृहत्तर है। ऐसी स्थिति में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी (CGGS) के अग्रतर बने रहने का कोई तार्किक आधार और आवश्यकता नहीं रह गई है।

6. वर्णित तथ्यों के आलोक में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.07.2016 के मद संख्या-03 में लिये गये निर्णयानुसार सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के दाय एवं परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को अंतिम रूप से दिनांक 11.08.2016 को हो चुका है। अतः सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को अब तत्कालिक प्रभाव से विघटित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 820-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>